



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी प्रेस नोट

दिनांक 13.09.2021

थाना जैतपुरा पुलिस टीम द्वारा 06 घण्टे के अन्दर गुमशुदा बालक देव व बालिका मान्या सकुशल बरामद

थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा पुलिस आयुक्त वाराणसी के गुमशुदा बालकों की तलाश व बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में श्री शंकर प्रताप जयसवाल उर्फ सोनू की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना जैतपुरा पुलिस टीम द्वारा 06 घंटे के अंदर गुमशुदा बालक देव व बालिका मान्या को सकुशल बरामद किया गया।

उल्लेखनीय है की दिनांक 12.09.21 को श्री शंकर प्रताप जयसवाल उर्फ सोनू निवासी J 28/131 आगागंज जैतपुरा द्वारा पुलिस को करीब 15.20 बजे सूचना दी गई कि उनके पुत्र देव जायसवाल उम्र 7 व पुत्री मान्या जायसवाल उम्र 11 वर्ष घर से निकले और घर वापस नहीं आए, घरवालों ने अपने स्तर से खोजबीन किया लेकिन पता नहीं चलने पर थाने पर सूचित कर रहा हूँ। सूचना प्राप्त होते ही जैतपुरा पुलिस टीम को घर वालों के साथ भेजा गया। आस पास चारों तरफ हर रास्ते पर व सीसीटीवी फुटेज से भी जांच की गई तथा जिन रास्तों पर बच्चों का जाना दर्शाया गया वहां से भी टीमों को रवाना किया गया। पुलिस टीम के अथक प्रयास के बाद समय करीब 9:00 बजे रात्रि में दोनों बच्चे दशा सुमेर घाट पर मिले, बच्चों से पूछताछ करने पर पता चला कि होमवर्क ना होने के भय से वे घर से चले गए थे। बच्चों को सकुशल देख घरवालों के खुशी का आलम नहीं था पूरा परिवार खुश था, मोहल्ले के लोग भी काफी परेशान थे बच्चों के मिलने से पुलिस के अथक प्रयासों की लोगों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की।



सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी